KRIBHCO
Cooperative and beyond...

कृषक सारथी

Monthly Newsletter of
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED (KRIBHCO)

ISSUE 43 – JULY / जुलाई – 2026

सहकार से समृद्धि के 5 स्वर्णिम वर्ष

CELEBRATING FIVE YEARS OF STRENGTHENING INDIA'S COOPERATIVE MOVEMENT

For Internal Circulation Only

DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Readers,

It gives me immense pleasure to present another edition of Krishak Saarathi. As India's agricultural and cooperative sectors continue to evolve, this publication highlights the initiatives and developments strengthening a resilient and farmer-centric cooperative ecosystem

The completion of five years of the Ministry of Cooperation marks a significant milestone in advancing the vision of "Sahkar Se Samriddhi." Through reforms in transparency, digitalisation, professional governance and inclusive growth, the Ministry has created new opportunities for cooperatives and farmers. At the same time, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare continues to promote sustainable agriculture through natural farming, balanced nutrient management, soil health and climate-resilient practices

As an integral part of India's cooperative movement, KRIBHCO remains committed to providing quality agricultural inputs, promoting sustainable farming and strengthening farmer-centric services. Together, through cooperation and innovation, we can contribute towards a prosperous, self-reliant and Viksit Bharat

I sincerely thank our member cooperatives, farmers, employees and stakeholders for their continued trust and support.

S.S YADAV
Managing Director, KRIBHCO

EDITOR'S MESSAGE

Dear Readers,

Welcome to the latest edition of Krishak Saarathi. This issue presents KRIBHCO's key initiatives and achievements during the first half of 2026, reflecting our continued commitment to strengthening the cooperative movement and promoting sustainable agriculture.

The edition features the nationwide observance of Cooperative Week, natural farming and farmer awareness initiatives, environmental sustainability, International Yoga Day, the visit of the Namibian delegation to KRIBHCO Bhawan, Noida, and the significant milestone of OMIFCO's transition into a Public Limited Company.

Each initiative reflects KRIBHCO's commitment to the vision of "Sahkar Se Samriddhi" and to empowering farmers through innovation, sustainability and cooperative values.

We sincerely thank our member cooperatives, farmers, stakeholders and readers for their continued trust and support. We hope this edition provides valuable insights into KRIBHCO's journey and inspires collective efforts towards a prosperous and sustainable agricultural future.

Shalender Singh
DGM (Mktg. & PR), KRIBHCO

EDITORIAL BOARD

Sh. S.S YADAV, MD
Chairman
Sh. Shalender Singh, DGM (Mktg. & PR)
Chief Editor

Dr. Tejinder Singh, GM (Mktg.)
Member (FAS)
Sh. Devisht Agarwal, M (MS)
Member IT and Technical

Sh. Guruprasad Hiremath, DM (Mktg.)
Editing, Design and Circulation
Sh. Mohit, DM (Mktg.)
Member-Industry updates

MINISTRY OF COOPERATION NEWS

Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah Addresses the 5th Foundation Day Celebration of the Ministry of Cooperation

Hon'ble Union Home and Cooperation Minister, Shri Amit Shah addressed the 5th Foundation Day celebration of the Ministry of Cooperation in New Delhi on 6th July 2026. The programme was attended by Hon'ble Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajan Lal Sharma, Hon'ble Union Ministers of State for Cooperation, Shri Krishan Pal Gurjar and Shri Murlidhar Mohol along with senior officials representatives of national cooperative institutions, cooperative federations, cooperative banks, dairy cooperatives, PACS and other stakeholders from across the country.

Addressing the gathering, Shri Amit Shah described the establishment of the Ministry of Cooperation as a historic step taken under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.

He stated that during the past five years the Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector and has strengthened more than 8.5 lakh cooperative institutions across the country.

He said that the Ministry has worked with the spirit of cooperation by identifying the challenges faced by the sector, preparing a comprehensive roadmap for its development and implementing reforms that have made the cooperative ecosystem, more modern transparent technology driven and competitive. He emphasised that the Ministry has consistently worked in partnership with States and Cooperative Institutions while respecting the federal spirit and strengthening the cooperative movement across the nation.

Shri Amit Shah stated that the Ministry has expanded the scope of cooperation beyond traditional activities by Integrating Agriculture, Dairy, Banking, Logistics, Mobility, Digital Services, Organic Farming, Storage, Exports, Seed Production and Green Energy under the cooperative framework. He said that nine national level cooperative societies are now connecting these sectors from the national level to the village level and are expected to emerge as globally significant cooperative institutions in the coming years.

Highlighting the importance of technology in strengthening the cooperative movement he informed that a comprehensive digital database covering more than 8.5 lakh cooperative societies across 30 sectors and over 32 crore cooperative members has been developed. The database includes information relating to audit, status, turnover and grading of cooperative institutions enabling better planning transparency and governance.

Hon'ble Union Home and Cooperation Minister, Shri Amit Shah also highlighted the major initiatives undertaken to strengthen Primary Agricultural Credit Societies (PACS). He informed that model by laws have been adopted across the country and that over 55,000 PACS are now delivering more than 300 citizen services through Common Service Centres. Nearly 50,000 PACS have been transformed into e-PACS with computerised operations enabling transparent digital management and e-audits. Thousands of PACS are also functioning as Kisan Samriddhi Kendras, Jan Aushadhi Kendras, fuel outlets and service centres for rural communities thereby expanding their role in rural development.

Emphasising the importance of institutional capacity building, Shri Amit Shah said that the establishment of **Tribhuvan Sahkari University** will help create professionally trained human resources for every segment of the cooperative sector including agriculture, banking, dairy, fertilizers, marketing and rural development. The University aims to strengthen professional management enhance efficiency and further promote transparency within cooperative institutions.

Referring to the cooperative banking sector, Shri Amit Shah said that District Cooperative Banks and Urban Cooperative Banks have been modernised through Digital Banking Services, Cyber Security, Digital Lending and e-KYC. He noted that the business of District Cooperative Banks has increased significantly while the financial health of Urban Cooperative Banks has also improved through reduction in non-performing assets and enhanced operational efficiency.

The Hon'ble Union Home and Cooperation Minister also underlined the growing role of cooperatives in strengthening agricultural marketing exports and seed production. He stated that Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) is expected to emerge as the country's largest seed production company within the next three years. New tissue culture facilities and seed production units in different States will help farmers access high quality seeds improve productivity and enhance their participation in global agricultural markets.

Shri Amit Shah, further stated that the cooperative model is being actively integrated with Organic Farming, Cattle Waste Management, Renewable Energy, Circular Economy initiatives and Organic Fertiliser Production to promote sustainable rural development. He encouraged farmers to adopt environment friendly agricultural practices and highlighted the efforts being made to connect farmers with domestic as well as international markets through cooperative institutions.

He also shared that new cooperative initiatives such as Gomay Cooperative Society Multi State Limited, Bharat Taxi and other sector specific cooperative organisations have been launched to generate new livelihood opportunities strengthen rural infrastructure and improve service delivery through the cooperative model.

Expressing confidence in the future of the cooperative movement, Shri Amit Shah stated that when the nation celebrates the centenary of Independence in 2047, the cooperative sector will serve as one of the strongest pillars of a Prosperous India. He reaffirmed the commitment of the Ministry of Cooperation towards ensuring that the benefits of development reach farmers, dairy producers, rural entrepreneurs and every member of the cooperative family with dignity and transparency.

On the occasion, Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah laid the foundation stone, inaugurated and dedicated several important cooperative projects to the nation. These included new foodgrain storage infrastructure, the Bhoomi Pujan of Sahakar Van, a 64-acre cooperative afforestation project developed by Amul and NCCF, BBSSL tissue culture facilities, the launch of NCDC 3.0 geo-tagging applications, NDDB digital initiatives, Cooperative Milk Producers Organization Multi State Limited, Gomay Cooperative Society Multi State Limited, digital banking platforms for Urban Cooperative Banks and the milestone of transforming 50,000 PACS into e-PACS. An MoU was also signed between BBSSL and ICAR to strengthen India's seed system while model by laws for dairy cooperative societies and a publication highlighting the achievements of the Ministry of Cooperation during the last five years were also released.

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नाफेड के ई–नीलामी पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) के ई–नीलामी पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई अहीर तथा अनेक गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नाफेड ने चार महत्वपूर्ण पहलों—NAFEX-in, DRISHTI, ERP तथा NAFED Kalyan—का शुभारंभ किया है। उन्होंने इन पहलों को सहकारी विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और किसानों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि पिछले एक दशक में नाफेड ने उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जहाँ यह संस्था गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही थी, वहीं आज यह देशभर के 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा करने वाली एक वित्तीय रूप से सशक्त एवं किसान–केंद्रित सहकारी संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि नाफेड ने लगभग ₹30,000 करोड़ का कारोबार तथा लगभग ₹500 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, जो कृषि एवं सहकारिता क्षेत्रों में उसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष खरीद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि नाफेड तथा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ) आगामी दो वर्षों में किसानों से दलहन की प्रत्येक उपज का प्रत्यक्ष क्रय करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इस पहल से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा तथा एक पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था के माध्यम से भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन, मक्का तथा अन्य कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा चुकी है। अब अगले चरण में इस व्यवस्था का विस्तार जमीनी स्तर तक किया जाएगा, ताकि देशभर के किसान सहकारी खरीद प्रणाली का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कृषि उपज की खरीद से आगे बढ़कर नाफेड की गतिविधियों के विविधीकरण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्था ने जैविक खेती, बीज उत्पादन, जैव उर्वरक निर्माण, खुदरा व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन पहलों ने संस्था की वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया है, साथ ही किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए सेवाओं का विस्तार भी किया है। श्री अमित शाह ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से नाफेड का कारोबार ₹20,000 करोड़ से बढ़कर ₹30,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी दो वर्षों में संस्था का कारोबार ₹50,000 करोड़ के आँकड़े को पार कर जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि नाफेड के शुद्ध लाभ तथा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (Net Worth) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे एक आत्मनिर्भर राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में इसकी भूमिका और अधिक सुदृढ़ हुई है। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह ने NAFED Scholarship Scheme की भी घोषणा की, जिसके अंतर्गत संस्था के वार्षिक लाभ का एक प्रतिशत भाग किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा एवं करियर विकास के लिए निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कृषि गतिविधियों से आगे बढ़कर किसान समुदाय के कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रति सहकारिता आंदोलन की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण किया। NAFEX-in के शुभारंभ के साथ–साथ अन्य डिजिटल पहलों का प्रारंभ भारत के सहकारी विपणन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पहलों से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, बाजार तक पहुँच में सुधार होगा, किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा एक सदृढ़, समावेशी और सक्षम कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहकारिता की भूमिका और अधिक सशक्त होगी।

Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah Launches Bharat Taxi in Gujarat

Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah launched the cooperative-based mobility platform Bharat Taxi in Gandhinagar, Gujarat on 27th June 2026. The initiative marks an important step towards expanding the cooperative movement into the mobility sector while promoting the vision of "Sahakar Se Samriddhi." The programme was attended by Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, Hon'ble Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Harsh Sanghavi, Hon'ble Minister of Cooperation, Government of Gujarat, Shri Jitubhai Vaghani, Hon'ble Minister of State for Cooperation, Government of Gujarat, Shri Rameshbhai Katara, Secretary, Ministry of Cooperation, GoI, Dr. Ashish Kumar Bhutani, Chairman of Bharat Taxi, Dr. Jayen Mehta, senior officials representatives of cooperative institutions and a large number of Sarathis.

Addressing the gathering, Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah described Bharat Taxi as a unique cooperative initiative that aims to provide Sarathis engaged in taxi auto and two-wheeler transport services with ownership respect security and opportunities for long-term prosperity. He said that unlike conventional app-based transport platforms, Bharat Taxi is based on the cooperative model where Sarathis are not only service providers but also shareholders and partners in the organisation.

Shri Amit Shah stated that Bharat Taxi reflects the cooperative philosophy of ensuring equitable growth through collective ownership and transparent governance. He emphasised that the initiative seeks to create a fair and service-oriented mobility ecosystem while strengthening the livelihood security of Sarathis. He added that more than seven lakh Sarathis have already joined the Bharat Taxi platform and nearly 37 lakh customers have availed its services demonstrating growing public confidence in the cooperative model.

Highlighting the objectives of Bharat Taxi, Shri Amit Shah said that the cooperative platform has been established to provide Sarathis with greater financial security, transparent earnings and access to future support such as loans, insurance and business expansion opportunities. He noted that the cooperative model enables members to participate directly in the institution's growth while ensuring that the benefits are shared among its stakeholders.

The Hon'ble Union Home and Cooperation Minister observed that the success of cooperative institutions in sectors such as dairy and fertilisers has demonstrated the strength of collective ownership and transparent governance. Referring to organisations such as Amul, IFFCO and KRIBHCO, he said that these institutions have empowered millions of members through the cooperative model and Bharat Taxi represents an effort to extend the same principles to the transport and mobility sector. Shri Amit Shah informed that Bharat Taxi services have commenced across major cities of Gujarat including Ahmedabad, Surat and Rajkot covering two-wheeler auto-rickshaw and four-wheeler categories. He expressed confidence that the platform would expand to more than 500 cities and towns across the country within the next two years, while services in seven major cities are expected to commence before the end of July 2026. He further emphasised the importance of public participation in strengthening the cooperative initiative and encouraged both Sarathis and customers to support Bharat Taxi for the development of a reliable, transparent and service-oriented transport system. He stated that the cooperative model is designed to ensure long-term sustainability while promoting the welfare and dignity of its members.

During the programme Memorandums of Understanding were exchanged with several institutions including Gujarat Metro Rail Corporation, Gujarat State Cooperative Bank, Gujarat Traffic Police Airports Authority of India, Western Railway Ahmedabad Division and other organisations to strengthen Bharat Taxi's operational network and enhance integrated transport services across the State. Share certificates were also presented to outstanding Sarathis in recognition of their contribution to the cooperative movement.

The launch of Bharat Taxi in Gujarat represents another significant milestone in expanding cooperative principles into emerging sectors of the economy. By combining technology, transparency and collective ownership the initiative aims to create a sustainable mobility ecosystem that promotes the welfare empowerment and prosperity of Sarathis while providing efficient transport services to the public.

भारत के सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में भावी कार्ययोजना निर्धारित

"सहकार से समृद्धि – विज़न से जमीनी हकीकत तक" विषय पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन 25 जून 2026 को श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सहकारिता क्षेत्र के भावी दृष्टिकोण एवं कार्ययोजना पर विचार–विमर्श करना था। इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा प्रमुख हितधारक शामिल हुए। कृभको का प्रतिनिधित्व श्री गजेन्द्र कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक (विपणन) ने किया। सम्मेलन के दौरान सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, श्रेष्ठ कार्य–पद्धतियों का आदान–प्रदान किया गया तथा सहकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भारत के सहकारिता क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में मंत्रालय ने विकासोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण समृद्धि, समावेशी विकास तथा अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया है।

डॉ. भूटानी ने मंत्रालय द्वारा की गई अनेक महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण, मॉडल उपविधियों (Model Bye -Laws) को अपनाना, नई बहुउद्देशीय PACS डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन, PACS की व्यावसायिक गतिविधियों का विविधीकरण तथा निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं की स्थापना इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं।

सहकारिता विकास के अगले चरण की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. भूटानी ने कहा कि अब ध्यान केवल संख्यात्मक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर गुणवत्ता, जवाबदेही, पेशेवर प्रबंधन तथा जमीनी स्तर पर स्पष्ट एवं प्रभावी परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन, मापनीय परिणामों तथा मजबूत संस्थागत सुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यही उपाय सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. भूटानी ने कहा कि यूपीआई (UPI) और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के इस युग में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सहकारी बैंकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म अपनाने होंगे। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों में समान प्रौद्योगिकी समाधान, सदृढ़ शासन व्यवस्था, बेहतर ग्राहक सेवाओं तथा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर बल दिया।

उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में सतत् विकास एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की पहलों के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि डेयरी विकास, संपीड़ित बायोगैस (Compressed Biogas), जैविक खाद उत्पादन तथा चीनी उद्योग के उप–उत्पादों से मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियाँ सदस्यों की आय बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी प्रोत्साहित करेंगी।

डेटा–आधारित सुशासन पर बोलते हुए डॉ. भूटानी ने बताया कि आगामी नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2.0 सहकारी संस्थाओं को अपने आँकड़ों का प्रत्यक्ष अद्यतन एवं सत्यापन करने की सुविधा देगा, जिससे योजना निर्माण, निगरानी, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (World's Largest Grain Storage Plan) का उल्लेख करते हुए डॉ. भूटानी ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने का आह्वान किया। उन्होंने वंचित पंचायतों में नई बहुउद्देशीय PACS डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन, PACS के कम्प्यूटरीकरण, मॉडल उपविधियों को अपनाने तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण पर भी बल दिया।

सम्मेलन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सफल मॉडलों, नवाचारी पहलों एवं क्षेत्रीय अनुभवों के आदान–प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बना। इस दौरान उत्तर–पूर्व में सहकारिता विकास, कृषि अवसंरचना, सहकारिता आधारित निर्यात, जैविक उत्पादों तथा बीज प्रणाली को सुदृढ़ करने और उत्पादकों, बाजारों व उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर NABARD, NDDB, IFFCO, KRIBHCO, NAFED, NCCF तथा NCDC ने वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास एवं बाजार समर्थन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन का समापन आगामी छह महीनों के लिए कार्योन्मुखी लक्ष्यों एवं अनुशंसाओं के साथ हुआ। सभी सहकारी संस्थाओं एवं हितधारकों ने मजबूत संस्थागत व्यवस्था, पारदर्शिता, तकनीकी प्रगति तथा सतत सहकारी विकास के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई।

Ministry of Agriculture and Farmers' welfare news

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री (उ०प्र०) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास पहलों की समीक्षा

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जून 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य की कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी पहलों की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान राज्य सरकार को दो महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ प्रदान की गई। इनमें रबी विपणन मौसम 2026–27 के अंतर्गत गेहूँ, चना एवं मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अवधि को 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY & G) के नए चरण के अंतर्गत 6,18,482 पक्के आवासों की स्वीकृति प्रदान करना शामिल है।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में से एक बताते हुए जलवायु परिवर्तन, वर्षा के बदलते स्वरूप तथा भूजल स्तर में गिरावट जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक एवं दीर्घकालिक कृषि रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रोडमैप में फसल नियोजन, सिंचाई, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

सामान्य से कम वर्षा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बैठक में जलवायु–अनुकूल कृषि (Climate & Resilient Agriculture) के लिए आकस्मिक उपायों की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में प्रत्येक जिले के लिए पृथक कार्ययोजना तैयार करने, कम अवधि एवं कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहित करने तथा कृषि विज्ञान केंद्रों एवं राज्य की कृषि संस्थाओं के माध्यम से समय पर परामर्श सेवाएँ, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अवधि बढ़ाए जाने से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलने की अपेक्षा है, क्योंकि इससे उन्हें गेहूँ, चना एवं मसूर की उपज का लाभकारी मूल्य पर विक्रय करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। यह निर्णय किसानों को विवशतापूर्ण बिक्री (Distress Sale) से बचाने तथा उनकी आय की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY&G) के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 ग्रामीण आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह पहल पात्र ग्रामीण परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के साथ–साथ पारदर्शी कार्यान्वयन एवं प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से समावेशी ग्रामीण विकास को भी गति प्रदान करेगी।

बैठक में केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि को सशक्त बनाने, ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा राज्यभर में सतत् ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Hon'ble Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan Holds Bilateral Meeting with Afghanistan to Strengthen Agricultural Cooperation

Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare and Rural Development Shri Shivraj Singh Chouhan, held a bilateral meeting with Hon'ble Minister of Agriculture Irrigation and Livestock of Afghanistan, H.E. Mawlawi Ataullah Omari in New Delhi on 8th July 2026, to review the existing agricultural partnership and explore new opportunities for cooperation in Agriculture, Irrigation, Livestock, Research, Education, Capacity Building and Agri-Trade. Senior officials of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare and the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) participated in the discussions.

Welcoming the Afghan delegation, Shri Chouhan reaffirmed India's commitment to strengthening agricultural cooperation with Afghanistan. He stated that India and Afghanistan share longstanding ties based on trust friendship and people-to-people relations and expressed India's readiness to share its scientific expertise technological advancements and institutional experience to support Afghanistan's Agricultural Development, Food Security and Farmers' Welfare.

The discussions focused on improving seed systems enhancing crop productivity promoting climate-resilient agriculture, strengthening irrigation and water conservation and expanding cooperation in agricultural research and education. Shri Chouhan highlighted India's experience in Quality Seed Production, Micro-Irrigation, Rainwater Harvesting, Soil Health Management, Digital Agriculture and Post-Harvest Management and offered support in these areas.

Both sides also discussed strengthening collaboration between ICAR and Afghanistan's agricultural institutions through joint research training programmes, faculty and student exchanges and capacity-building initiatives. Cooperation in Horticulture, Dairy, Livestock, Fisheries, Animal Health and Agricultural Technology also featured prominently during the meeting.

The Afghan delegation appreciated India's continued support and expressed interest in expanding cooperation in seed development irrigation, agricultural, education, technology, transfer value addition and agricultural trade. Both countries also agreed to work towards establishing a Joint Working Group to prepare a long-term roadmap for agricultural cooperation and promote regular institutional engagement.

The meeting reaffirmed the shared commitment of India and Afghanistan to strengthen bilateral cooperation through research innovation technology transfer and capacity building for promoting sustainable agriculture food security and the prosperity of farmers in both countries.

'खेत बचाओ अभियान' मृदा स्वास्थ्य एवं सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के बावल में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के समापन समारोह तथा हरियाणा किसान उत्पादक संगठन (FPO) मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की। इस अवसर पर किसान, कृषि विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे तथा सतत कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया गया।

इस अवसर पर कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (**कृभको**) ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। **कृभको** के अधिकारियों ने किसानों के साथ संवाद स्थापित करते हुए मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, सतत् कृषि पद्धतियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। **कृभको** ने किसानों के बीच वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों को भी साझा किया।

सभा को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समृद्ध किसान ही विकसित भारत की आधारशिला हैं। उन्होंने सतत् कृषि, संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने किसानों के हित में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को कृषि नवाचार एवं सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक तथा असंतुलित उपयोग मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, भूमि की उर्वरता को कम करता है तथा दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने का आग्रह किया तथा कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी दी कि किसानों को वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का भी आह्वान किया तथा जल संरक्षण, फसल विविधीकरण एवं जलवायु–अनुकूल कृषि को सदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बदलती जलवायु परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सतत् कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए कम अवधि तथा कम जल की आवश्यकता वाली फसल किस्मों की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 'खेत बचाओ अभियान' को एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण एवं पुनर्स्थापना करना तथा देशभर में पर्यावरण–अनुकूल एवं सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को कृषि भूमि के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सक्रिय सहभागिता की शपथ भी दिलाई।

इस कार्यक्रम ने सतत् कृषि को सदृढ़ बनाने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा समन्वित प्रयासों के माध्यम से किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एवं हरियाणा सरकार की साझा प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ता से अभिव्यक्त किया।

KRIBHCO HIGHLIGHTS

सहकार सप्ताह समारोह के अंतर्गत कृभको का वृक्षारोपण अभियान

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकार सप्ताह समारोह के अंतर्गत कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड ने कृभको भवन, नोएडा में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इसके साथ ही, **कृभको** द्वारा देशभर के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं जन–जागरूकता को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला। इस पहल के माध्यम से संस्था ने पर्यावरणीय सततता तथा "सहकार से समृद्धि" के सहकारी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सदृढ़ किया। यह अभियान सहकारिता विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संगठन के सतत प्रयासों का परिचायक रहा।

कृभको भवन, नोएडा में आयोजित वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ **कृभको** के अध्यक्ष श्री वी. सुधाकर चौधरी ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार श्री आर. वेंकटरमणन, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) श्री सी.एस. आजाद, वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य तथा **कृभको** के कर्मचारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के उपरांत कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक कृभको भवन परिसर में वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता की और हरित एवं स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

इस पहल ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन को सदृढ़ करने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने में वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही, इसने इस विश्वास को भी सदृढ़ किया कि पर्यावरण संरक्षण उत्तरदायी विकास एवं सामुदायिक कल्याण का अभिन्न अंग है।

यह वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन–जागरूकता को सदृढ़ करने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ। नोएडा मुख्यालय से लेकर देशभर के विभिन्न राज्यों में आयोजित इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण, सतत् विकास तथा "सहकार से समृद्धि" के विज़न के प्रति **कृभको** की दीर्घकालिक एवं अटूट प्रतिबद्धता को पुनः अभिव्यक्त किया।

KRIBHCO Celebrates International Yoga Day 2026 with Enthusiasm

On the occasion of International Yoga Day 2026, KRIBHCO organized a yoga session at KRIBHCO Bhawan, Noida, reaffirming its commitment to promoting health, wellness and a balanced lifestyle among employees.

The programme witnessed the participation of Shri S.S. Yadav, Managing Director, Shri C.S. Azad, Executive Director (Technical) along with members of the Senior Management and employees of KRIBHCO and its subsidiaries. The session was conducted in the spirit of this year's International Yoga Day theme "Yoga for Healthy Ageing."

Addressing the significance of the occasion, participants highlighted yoga as a timeless practice that nurtures physical health, mental well-being and inner vitality. The session encouraged employees to incorporate yoga into their daily lives for achieving greater balance, resilience and overall wellness.

The celebration reflected KRIBHCO's continued commitment to fostering a healthy workplace culture and inspiring individuals to adopt holistic lifestyle practices for long-term well-being.

KRIBHCO Hosts Namibian Delegation to Explore Cooperation in Agriculture and Fertilizer Sector

KRIBHCO had the privilege of welcoming H.E. Wing Commander Alex Tukuhupwele, High Commissioner of the Republic of Namibia, Mr. Tangeni Mulunga, Deputy Head of Mission and members of the Namibian delegation to KRIBHCO Bhawan.

The delegation was received by Shri S.S. Yadav, Managing Director, KRIBHCO, Shri R.Venkataramanan, Director (Finance)-Addl.Charge, Shri C.S. Azad, Executive Director (Technical) and members of the senior management.

During the interaction, discussions focused on exploring opportunities for mutually beneficial cooperation in the fertilizer and agriculture sectors. The deliberations emphasised knowledge sharing, capacity building, sustainable agricultural development and the exchange of best practices to strengthen agricultural productivity and food security.

The meeting reflected the shared commitment of both sides to fostering international partnerships that promote agricultural growth, enhance cooperation in the fertilizer sector and contribute to sustainable economic development.

TRIVIA

India is an important trading partner for Namibia, exporting pharmaceuticals, machinery, chemicals, vehicles and agricultural inputs, including fertilizers. With both countries placing increasing emphasis on climate resilience and sustainable development, there is significant potential to expand cooperation in climate-smart agriculture, irrigation technologies, seed systems, fertilizer management and cooperative-led rural development.

ओमिफको ने सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में विकास के नए युग में किया प्रवेश

ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को) ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तन के साथ अपनी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह परिवर्तन संगठन के विकास के नए चरण की शुरुआत करते हुए उसके वैश्विक दृष्टिकोण को और अधिक सुदृढ़ करता है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में ओमिफ्को के अध्यक्ष एवं कृभको के प्रबंध निदेशक श्री एस. एस. यादव, ओमान सल्तनत में भारत के राजदूत महामहिम श्री प्रशांत पिशे, इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी, ओमिफ्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अहमद अल मरहूबी तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में यह परिवर्तन ओमिफ्को के स्वामित्व के दायरे का विस्तार करते हुए उसमें ओमान के नागरिकों तथा वैश्विक निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ ही, यह संगठन की सदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अधिक पारदर्शिता तथा दीर्घकालिक एवं सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाता है।

ओमिफ्को के एक प्रमुख भागीदार के रूप में कृभको इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़कर गौरवान्वित है। यह उपलब्धि उर्वरक क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार एवं सतत् विकास के प्रति भागीदार संस्थाओं की साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। यह मील का पत्थर ओमिफको की एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित उर्वरक उत्पादक के रूप में स्थिति को और अधिक सदृढ़ करता है तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कृषि विकास एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में उसके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित करता है।

क्या आप जानते हैं?

कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), ओमान इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी (ओमिफ्को) की संस्थापक शेयरधारकों में से एक है। वर्ष 2026 में ओमिफ्को के सार्वजनिक सूचीबद्ध (Public Listing) होने के बाद भी कृभको की इसमें 18.75% हिस्सेदारी बनी हुई है। यह साझेदारी भारत और ओमान के बीच कृषि तथा आर्थिक सहयोग के मजबूत और दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है।

सहकारिता मंत्रालय के पाँचवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सहकार सप्ताह के शुभारंभ पर कृभको में सहकारिता शपथ समारोह आयोजित

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) ने सहकार सप्ताह के अंतर्गत देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन आयोजनों के माध्यम से संस्था ने "सहकार से समृद्धि" के विज़न तथा सहकारिता आंदोलन के मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः अभिव्यक्त किया।

इस श्रृंखला के अंतर्गत कृभको भवन, नोएडा में आयोजित सहकारिता शपथ समारोह में निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार श्री आर. वेंकटरमणन तथा कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) श्री सी.एस. आजाद की गरिमामयी उपस्थिति में कृभको के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहकारिता की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने सहयोग, पारदर्शिता, समावेशिता तथा किसान समुदाय की सेवा के सिद्धांतों का पालन करते हुए "सहकार से समृद्धि" के विज़न और सहकारिता आंदोलन के शाश्वत मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके उपरांत कृभको भवन, नोएडा में आयोजित एक अन्य सहकारिता शपथ समारोह में महाप्रबंधक (विपणन) डॉ. प्रदीप कुमार, महाप्रबंधक (विपणन) डॉ. तेजिंदर सिंह तथा महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री कमलजीत की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहकारिता शपथ ग्रहण करते हुए संगठन के सहकारी आदर्शों एवं किसान सेवा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।

सहकार सप्ताह के अंतर्गत कृभको के विभिन्न क्षेत्रीय एवं राज्य कार्यालयों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सहकारिता शपथ समारोह आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, किसानों के साथ संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सहकारिता आंदोलन के महत्व के प्रति व्यापक जन–जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसान गोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं विभिन्न सहकारिता जनसंपर्क गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

देशभर में आयोजित इन कार्यक्रमों ने किसान–केंद्रित पहलों, प्रभावी जनसंपर्क गतिविधियों तथा समावेशी एवं सतत विकास के प्रति कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया। साथ ही, इन आयोजनों ने किसानों के सशक्तिकरण एवं समृद्ध भारत के निर्माण में सहकारिता को एक प्रभावी माध्यम के रूप में आगे बढ़ाने के संगठन के सामूहिक संकल्प को पुनः सुदृढ़ किया।

अगस्त माह के प्रमुख कृषि कार्य

परिचय

अगस्त माह खरीफ फसलों की बढ़वार का महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली तथा दलहनी फसलों की वैज्ञानिक देखभाल आवश्यक है। अधिक वर्षा के कारण जलभराव, खरपतवार, कीट एवं रोगों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए समय पर उचित कृषि प्रबंधन अपनाकर फसलों की स्वस्थ वृद्धि एवं बेहतर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है।

धान

धान की अगस्त माह में रोपाई शेष हो तो उसे शीघ्र पूर्ण करें। खेत में 2–5 से.मी. जल स्तर बनाए रखें तथा जलभराव की स्थिति में अतिरिक्त पानी की निकासी करें। नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी किस्त अनुशंसित मात्रा में दें। समय–समय पर निराई–गुड़ाई करें तथा तना छेदक, लीफ फोल्डर, ब्लास्ट एवं शीथ ब्लाइट की नियमित निगरानी कर आवश्यकतानुसार नियंत्रण उपाय अपनाएँ।

मक्का

मक्का की फसल में अगस्त माह के दौरान पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए अर्थिंग–अप (मिट्टी चढ़ाना) करें तथा नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग दें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें और फॉल आर्मीवर्म की नियमित निगरानी करते हुए आवश्यकता अनुसार समेकित कीट प्रबंधन (IPM) अपनाएँ।

बाजरा एवं ज्वार

बाजरा और ज्वार में समय पर निराई–गुड़ाई करें तथा आवश्यकतानुसार नाइट्रोजन की शेष मात्रा दें। डाउनी मिल्ड्यू, तना छेदक एवं अन्य रोगों की निगरानी करें। खेत में जलभराव न होने दें क्योंकि इससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है।

सोयाबीन एवं मूंगफली

सोयाबीन की फसल में अतिरिक्त पानी की निकासी अत्यंत आवश्यक है। पीला मोजेक रोग, गर्डल बीटल एवं तना मक्खी की नियमित निगरानी करें। मूंगफली में पौधों पर मिट्टी चढ़ाएँ तथा टिक्का रोग और रस्ट रोग की रोकथाम करें। आवश्यकता होने पर जिप्सम का प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें।

दलहनी फसलें

अरहर, उड़द और मूंग जैसी दलहनी फसलों में निराई–गुड़ाई करें तथा जलभराव से बचाव करें। पीला मोजेक रोग और फली छेदक कीट की निगरानी करें। रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। दलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कपास

कपास में सफेद मक्खी, माहू, जैसिड एवं थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ सकता है। खेत का नियमित निरीक्षण करें और आर्थिक क्षति स्तर पर ही अनुशंसित नियंत्रण उपाय अपनाएँ। पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाएँ तथा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें।

गन्ना

गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने, नाइट्रोजन की शेष मात्रा देने तथा जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। पाइरिला, प्रारंभिक तना छेदक एवं लाल सड़न रोग की निगरानी करें। सूखी पत्तियों की मल्चिंग करने से नमी संरक्षण तथा खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है।

खरपतवार नियंत्रण

अगस्त में वर्षा के कारण खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, जिससे फसलों को पोषक तत्व, पानी और प्रकाश कम मिल पाता है। समय पर हाथ से निराई, खुरपी, यांत्रिक वीडर अथवा अनुशंसित खरपतवारनाशी का प्रयोग करें। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

पोषक तत्व एवं उर्वरक प्रबंधन

अधिक वर्षा के कारण नाइट्रोजन का बहाव एवं लीचिंग बढ़ जाती है। इसलिए नाइट्रोजन उर्वरक को विभाजित मात्रा में देना चाहिए। संतुलित उर्वरकों के साथ जैविक खाद, कम्पोस्ट, गोबर की खाद तथा जैव उर्वरकों का उपयोग करें। यदि जिंक या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे, तो पर्णीय छिड़काव करें।

जल प्रबंधन

यद्यपि अगस्त वर्षा का महीना है, फिर भी उचित जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियों की सफाई करें। मेड़ों की मरम्मत करें तथा वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। जलभराव से जड़ों को नुकसान होता है और रोगों का प्रकोप बढ़ता है।

कीट एवं रोग प्रबंधन

इस समय तना छेदक, फॉल आर्मीवर्म, सफेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स, लीफ फोल्डर और फली छेदक जैसे कीट सक्रिय रहते हैं। वहीं ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, टिक्का, रस्ट, पीला मोजेक तथा जीवाणु झुलसा जैसे रोग भी दिखाई दे सकते हैं। नियमित निरीक्षण करें, फेरोमोन ट्रैप एवं प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें तथा समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन (IPM) अपनाएँ।

सब्जी

अगस्त माह में फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, पालक, मेथी, धनिया एवं मूली की खेती के लिए उपयुक्त समय होता है। पौधशाला तैयार करें, समय पर रोपाई करें तथा पौधों को संतुलित पोषण दें। सब्जियों में फल एवं तना छेदक, माहू तथा फफूंदजनित रोगों की नियमित निगरानी करें।

फलोद्यान

आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू वर्ग तथा अनार के बागों में जल निकासी बनाए रखें। सूखी एवं रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई करें, जैविक खाद डालें तथा फल मक्खी एवं अन्य कीटों की निगरानी करें। बागों की नियमित सफाई से रोगों का प्रकोप कम होता है।

पशुपालन एवं डेयरी

बरसात के मौसम में पशुओं में गलघोटू, लंगड़ा बुखार तथा अन्य संक्रामक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। समय पर टीकाकरण कराएँ, कृमिनाशक दवाएँ दें, पशुशाला को सूखा एवं स्वच्छ रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। हरे चारे के साथ संतुलित पशु आहार एवं खनिज मिश्रण देने से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है।

मृदा एवं जल संरक्षण

मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कम्पोस्ट, गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग करें। खेतों में मेड़बंदी, कंटूर बंडिंग, घास की पट्टियाँ तथा वर्षा जल संचयन संरचनाएँ विकसित करें। इससे मृदा अपरदन कम होता है और भूजल पुनर्भरण में सहायता मिलती है।

कृषि यंत्रों का रखरखाव

ट्रैक्टर, पंपसेट, स्प्रेयर तथा अन्य कृषि यंत्रों की नियमित सफाई और सर्विसिंग करें। यंत्रों को उपयोग के बाद सुरक्षित एवं सूखी जगह पर रखें। समय पर रखरखाव से कार्यक्षमता बढ़ती है और मरम्मत की लागत कम होती है।

जलवायु-स्मार्ट कृषि

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि कार्यों की योजना बनाएँ। सूखा एवं बाढ़ सहनशील किस्मों का चयन करें, फसल विविधीकरण अपनाएँ तथा जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करें। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिम कम किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

अगस्त माह खरीफ कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस अवधि में फसलों की नियमित निगरानी, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर निराई–गुड़ाई, जल निकासी, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा मृदा संरक्षण जैसे कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। साथ ही पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन और वर्षा जल संरक्षण को खेती के साथ जोड़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, मौसम आधारित जानकारी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इन कार्यों को समय पर पूरा करें, तो फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा कृषि अधिक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल बनेगी

KRIBHCO
Cooperative Week Celebrations 2026

In Commemoration of 5 Years of the Ministry of Cooperation

Nationwide Tree Plantation Drive

Across India Together for a Greener Future

कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा - 201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

KRIBHCO Bhawan, A-10, Sector-1, NOIDA - 201301, District Gautam Budh Nagar (U.P.)

Designed by- Isha Advertising Pvt. Ltd.